#### **GOALPOST INDUSTRIES LIMITED**

(Formerly known as Gulmohar Investments and Holdings limited) **Regd Office:** 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 Email id:gulmoharlimited@gmail.com.Tel.:011-27860681.Website: www.goalpostltd.in

CIN: L74110DL1982PLC013956

24.06.2023

To,

205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park,	The Calcutta Stock Exchange Limited 7, Lyons Range, Kolkata-700001
Symbol: GOALPOST	Scrip Code: 17433

Dear Sirs,

#### Sub: Newspaper clippings -Notice of Extra-Ordinary General Meeting and Record Date

We enclose herewith copies of the public notice of the Extraordinary General Meeting and Record Date published on June 24, 2023 in "English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "FINANCIAL EXPRESS" and Hindi newspaper i.e. "JANSATTA"

Thanking you

For and on behalf of the Board of Directors of Goalpost Industries Limited

Pawan Kumar Mittal Director DIN: 00749265 Address: I-19, Sai Appartment Rohini, Delhi-110085

Encl. Newspaper copy

TAURUS ASSET MANAGEMENT COMPANY LIMITED

with application form may be obtained from Fund's

SAI, SIDs and KIMs of the schemes of Taurus Mutual Fund along



Website: www.taurusmutualfund.com NOTICE CUM ADDENDUM TO THE STATEMENT OF ADDITIONAL INFORMATION (SAI). SCHEME INFORMATION DOCUMENT (SID) AND KEY INFORMATION MEMORANDUM (KIM) OF SCHEMES OF TAURUS MUTUAL FUND

#### RESIGNATION OF ACTING CHIEF EXECUTIVE OFFICER

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT Mr. Rohit Kumar Chawda, Acting Chief Executive Officer of Taurus Asset Management Company Limited ("the AMC") has resigned from the services of the AMC with effect from the close of business hours on June 22, 2023

Pursuant to his resignation, he also ceased to be a Key Personnel of the AMC.

THE RUSINESS DAILY

FINANCIAL EXPRESS

BUSINESS

financialexpress.com

Accordingly, all references pertaining to Mr. Rohit Kumar Chawda in SAI, SID and KIM of the schemes of Taurus Mutual Fund stand deleted.

Fund, as amended from time to time. For Taurus Asset Management Company Ltd. Place: Mumbai

This Addendum forms an integral part of the SAI, SID & KIM of the schemes of Taurus Mutual

(Investment Manager for Taurus Mutual Fund)

Date: June 23, 2023 Notice cum Addendum No. 08/2023-24 **Authorised Signatory** 

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.



Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

## MILTON CYCLE INDUSTRIES LIMITED

CIN:U35923HR1960PLC002317 Regd. Office: Industrial Area, Sonepat - 131001, Haryana (India) Mobile No.: +91 9812735346 E-mail: kkohli64@gmail.com

#### POSTAL BALLOT NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 of the Companies Act. 2013 read with Rules 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules. 2014 and other applicable laws and regulations, (including any statutory modifications or re-enactments thereof any) the Company has on Friday, 23rd June, 2023 completed the dispatch of Postal Ballot Notices, along with the Explanatory Statement and the Postal Ballot Forms in physical mode through Registered Speed Post, along with a postage prepaid self-addressed business reply

The resolutions seeking approval of the Shareholders of the Company to authorizing the board for sell or transfer or otherwise dispose of investment in the form of assets of the company i.e. land, building, plant & machinery situated at the registered office of the company (at Milton premises, industrial area, sonipat) on such terms and conditions (including the receipt of the consideration

The Board of Directors of the Company has appointed M/s Mukesh Arora & Co., Company Secretaries 304.12/1117, Nai Wala, Karol Bagh, New Delhi-110005 as the Scrutinizer to conduct the Postal Ballot process in a fair and transparent manner.

- The Members of the Company are also hereby informed and are requested to note that: Members whose names appeared in the Register of Members or Record of the Depositories
- as on the cut-off date, Friday, 16th June, 2023 are entitled to cast their votes by Postal Ballot. Voting through Postal Ballot by the shareholders of the Company shall commence on Monday.
- 26th June, 2023 at 9:00 am (IST) 3) Duly completed and signed Postal Ballot Forms should reach the Scrutinizer before the close of working hours 5:00 p.m. (IST) on Tuesday 25th July, 2023. Any postal ballot received from the Member after 5:00 pm (IST) on Tuesday 25th July, 2023, shall not be valid and shall be
- treated as if the reply from the shareholder has not been received. Shareholders who have not received the Postal Ballot Forms can obtain duplicate Postal Ballot Forms from the Secretarial Department of the Company at its Registered Office situated at
- Industrial Area, Sonepat 131001, Haryana (India).
- During the voting period, the shareholders can vote only one mode of voting by Postal Ballot. The result of Postal Ballot will be announced and displayed at the registered office of the
- in case of any query/grievance in relation to the voting by Postal Ballot the same may be

addressed to Mr. Kamal Kohli, Legal officer of the Company at its Registered Office at Industrial Area, Sonepat - 131001, Harvana (India)with e-mail marked to -kkohli64@gmail.com, Contact For Milton Cycle Industries Limited

Om Parkash Sharma

Date: 24.06.2023 Place: Sonepat

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION
(A Govt. of India Undertaking) 4/1, Siri Institutional Area. August Kranti Marg, Hauz Khas, New Delhi-110016 Ph: 011-49857894

Warehousing for Everyone No.: CWC/ RO-Bhopal/ Buss./ EOI/ 2023-24 // PUBLIC NOTICE //

OPPORTUNITY TO BOOK YOUR WAREHOUSING SPACE WITH THE PREMIER WAREHOUSING SERVICE PROVIDER OF INDIA Warehousing Corporation (a PSU under Govt. of India) invites Interested

Date: 23.06.2023

parties/ depositors to book/reserve vacant storage space for warehousing of agriproduce, industrial goods, FMCG, white/brown electronic goods, e-commerce and other notified commodities. Interest is also being invited from investors/developers. operators for development of Cold storage facilities including Controlled Atmosphere (CA)/Modified Atmosphere (MA) either through retrofitting or by developing new facility in Central Warehouse Bhind, Malanpur, Maksi, Khandwa, Morena - I & II and Sheopurkalan - I & II on long term Built-Operate-Transfer basis. Interested parties may contact CWC RO Bhopal through email phopal.business@cewacor.nic.in or visit link https://cewacor.nic.in/Home/TenderList REGIONAL MANAGER

### E-AUCTION SALE NOTICE

Private Limited (In Liquidation) ("Corporate Debtor") as per Regulation 32 of IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016 Regd. Office: Plot No. 31, 2nd Floor, Phase-1, Kalyan Nagar, Hyderabad-500038, Telangana

Corp. Office: D.No. 8-3-167/D/7/4/A, House of Shri Padmi Krishna, Lakshmi Nagar, Erragadda, Hyderabad -500 038. Telangana Sale of company / business as Going Concern / Assets of the Corporate Debtor by the

Liquidator appointed by Hon'ble National Company Law Tribunal, Hyderabad. The sale will be performed through E-Auction platform: https://www.bankeauctions.com.

No Asset Description Reserve Price EMD Amount Bid Increment al Value

1	Company as a whole as	56.25	5.625	0.05			
	Going concern						
2.	2. Date & Time of Auction 24.07.2023 From 10.00 am to 1.00 pm						
3.	Last Date for Submission of 8th July 2023						
	Eligibility / Bid Document						
4.	4. Last date for Inspection 17th July 2023 (between 11.00 am to 4.00 pm)						
	Contact Person: Liquidator Mobile No.703280897						
5.	5. Last date for submission of EMD 22.07.2023 (Before 5 pm)						
No	Notes:						
i)	i) Security interest of Financial Creditors of the CD over all items of assets listed						

- hereinabove was relinquished in favour of the liquidation estate
- Prospective bidder who is desirous of submitting bid in the E-Auction Process is advised to send email to the Liquidator at liquidation.svsvs@gmail.com for ascertaining eligibility criteria for submission of bid.
- iii) The bidders who meet the pre-bid qualifications and eligibility criteria can participate in the E-Auction, by bidding at least Reserve Price, i.e., Rs.56,25,00,000/ (Rupees Fifty Six Crore and Twenty Five Lakh Only) Terms and Conditions of E-Auction are as under
- This E-Auction Sale Notice is for the information of the prospective bidders who intend to participate in the sale process of Corporate Debtor through E-Auction
- ii) E-Auction will be conducted on "AS IS WHERE IS", "WHATEVER THERE IS" and "NO RECOURSE BASIS", through Service Provider C1 India Private Limited, Gurgaon (https://www.bankeauctions.com).
- iii) This Notice shall be read with E-Auction Process Information Memorandum containing details of the assets and the Corporate Debtor under liquidation available with the Liquidator. Name and Contact No. for technical support are Mr. P. Dharani Krishna Mobile No. 9948182222 and Email for communication is liquidation.svsvs@gmail.com.
- iv) The prospective bidders participating in the E-Auction are advised and accordingly expected to fill in the bid form before filling in and read the terms and conditions of the E-Auction carefully and submit the bid form along with the stipulated EMD before participating in the E-Auction.
- v) The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all bids or adjourn / postpone / cancel the E-Auction Process at any stage, without assigning any reason therefor.
- vi) The Sale shall be subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and the Regulations issued thereunder.

Place: Hyderabad Golla Ramakantha Rao Date: 24.06.2023 Liquidato

> In the matter of SV SVS Projects Private Limited AFA issued by IPAICAI is valid up to 20.12.2023

## GOALPOST INDUSTRIES LIMITED

(Formerly known as Gulmohar Investments and Holding Ltd) Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Tel.:011-27860681 Email: gulmoharlimited@gmail.com | Website:www.goalpostltd.in

CIN:L74110DL1982PLC013956

#### NOTICE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of the members of Goalpost Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, July 18, 2023 at 11: 00 A.M at 324A, III<sup>™</sup> Floor, Aggarwal Plaza,

Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting"). The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e Friday, June 16,2023. Notice is available on the website of the Company (www.goalpostltd.in).

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.goalpostltd.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

The remote e-voting facility shall commence on Saturday, 15th July 2023 from 9:00 A.M. & end on Monday 17th July ,2023 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date(Record date), i.e., Tuesday 11th July, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

### RECORD DATE FOR EGM

NOTICE is also hereby given pursuant to applicable provision of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Tuesday 11th July, 2023 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the EGM.

> For and on behalf of Board Goalpost Industries Limited Pawan Kumar Mittal

Date: 23/06/2023 (Director) Place: New Delhi DIN: 00749265

### . Continued from previous page

- Debt to equity ratio is calculated by dividing the debt (i.e., borrowings (current and non-current) and current maturities of long-term-borrowings) by total equity (which includes issued capital and all other equity reserves). Return on equity (RoE) is equal to profit for the year divided by the total equity during that period and is
- expressed as a percentage. Operating EBITDA refers to earnings before interest, taxes, depreciation, amortisation, gain or loss from discontinued operations and exceptional items. Operating EBITDA excludes other income.
- Operating EBITDA Margin refers to EBITDA during a given period as a percentage of revenue from operations

Net Profit Ratio/Margin quantifies our efficiency in generating profits from our revenue and is calculated by

dividing our net profit after taxes by our total revenue. RoCE (Return on Capital Employed) (%) is calculated as profit before tax plus finance costs divided by total equity plus non-current liabilities.

### **Comparison of key performance indicators with Peer Group Companies**

Sr No.	Key Performance Indicators	Tridhya Tech Limited	Infobean techno- logies Limited	Silver Touch Techno- logies Limited	Dev Information Technologies Limited
1.	Total Income	974.48	16560	12961.78	10005.83
2.	current Ratio	0.90	0.71	3.14	1.54
3.	Debt Equity Ratio	1.23	0.00	0.00	0.27
4.	EBDITA	416.85	3979	1217.00	455
5.	Operating EBDITA Margin	42.78	24.03	9.39	4.55
6.	PAT	322.61	2734.00	610.52	187.79
7.	Net profit Margin	21.76	16.51	4.71	1.88
8.	Return on Equity	2.85	113.12	48.14	17.01
9.	Return on Capital Employed	9.69	13.46	7.08	5.53

Kev Performance Indicators are as on March 31,2022 as we have not included the financial for the issuer company for Financial Year ended on March 31,2023. The peer group companies figures are also given for the Financial year ended on March 31,2022.

#### Weighted average cost of acquisition ("WACA"), floor price and cap price (a) The price per share of our Company based on the primary / new issue of shares

The details of the Equity during the 18 months preceding the date of this Draft Red herring prospectus, where such issuance is equal to or more that 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company (calculated based on the pre-Offer capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days ("Primary Issuance") are as follows:

Date of allotment	equity shares			allotment	Nature of consideration	Consideration (in ₹ lakhs)
February 22,2022	750000	10	60	Right issue	Cash	900.00
March 17,2022	98600	10	60	Preferential Issue	Cash	118.32
April 13,2022	241400	10	60	Preferential Issue	Cash	289.68
February 20,2023	15300000	10	0.00	Bonus	Other Than Cash	0.00
-	Weight	ed average co	ost of acquisi	tion		7.98

the same were consolidated on February 02,2023.

## (b) The price per share of our Company based on secondary sale/ acquisitions of shares (equity

The price per share of our Company (as adjusted for corporate actions, including split, bonus issuances) based on the secondary sale / acquisition of Equity Shares or convertible securities involving Promoter. Promoter Group during the 18 months preceding the date of filing of the Red herring Prospectus, where the acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our Company, in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days

There have been no secondary sale/ acquisitions of Equity Shares or any convertible securities, where our Promoters, members of our Promoter Group or Shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the Board of Directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of the Red herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-Issue capital before such transaction(s) and excluding ESOPs granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

The Issue Price is [ ] times of the Face Value of the Equity Shares.

The Issue Price of ` [●] has been determined by our Company in consultation with the BRLMs, on the basis of market demand from investors for Equity Shares, as determined through the Book Building Process, and is justified in view of the above qualitative and quantitative parameters. Investors should read the above-mentioned information along with "Risk Factors", "Business Overview", "Management Discussion and Analysis of Financial Position and Results of Operations" and "Restated Financial Information" on pages 19, 82, 180 and 123, respectively, to have a more informed view. The trading price of the Equity Shares could decline due to the factors mentioned in the "Risk Factors" and you may lose all or part of your investments.

# **BID/ISSUE PROGRAMME**

## ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: TUESDAY, JUNE 27, 2023\* BID/ISSUE OPENS ON FRIDAY, JUNE 30, 2023 BID/ISSUE CLOSES ON WEDNESDAY, JULY 05, 2023#

\* Our, in consultation with the BRLMs, may consider participation by Anchor Investors, in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bidding Date shall be one Working Day prior to the Bid/ Company Offer Opening Date.

#UPI mandate end time and date shall be at 5.00 pm on Bid/Issue Closing Date on Wednesday, July 05, 2023. In case of any revision in the Price Band, the Bid/Issue Period will be extended by at least three additional Working Days. In cases of force majeure, banking strike or similar circumstances, our Company may, for reasons to be recorded in writing, extend the Bid

/Issue Period for a minimum of three Working Days, subject to the Bid/Issue Period not exceeding 10 Working Days. Any revision to the Stock Exchange, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the BRLMs and at the terminals of the members of the Syndicate and by intimation to Designated Intermediaries and the Sponsor Bank, as applicable. This Issue is being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 10,00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), Further, 5.00% of the QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid

Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5.00% of the QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation to QIBs. Further, not less than 15.00% of the Net Issue shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. For details, see "Issue Procedure" on page 216 of the RHP. Bidders / Applicants should ensure that DP ID, PAN and Client ID and UPI ID (for RIBs bidding through the UPI mechanism) are correctly filled in the Bid cum Application Form should match with the DP ID, PAN and Client ID available in the Depository database, otherwise, the

Bid cum Application Form is liable to be rejected. Bidder/Applicants should ensure that the beneficiary account provided in the Bid cum Application Form, the Bidders/Applicants may be deemed to have authorized the Depositories to provide to the Registrar to the Issue, any requested Demographic Details of the Bidder/Applicant as available on the records of the depositories. These Demographic Details may be used, among other things, for giving Allotment Advice or unblocking of ASBA Account or for other correspondence(s) related to an Issue. Bidders/Applicants are advised to update any changes to their Demographic Details as available in the records of the Demographic Details would be at the Bidders/Applicants' sole risk. Investors must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020, and press release dated June 25, 2021.



Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of it !!!

\*Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to offers by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. Mandatory in Public offers. No cheque will be accepted.

UPI-Now available in ASBA for all individual investors applying in public issues where the application amount is up to ₹ 500,000, applying through Registered Brokers, Syndicate, CDPs & RTAs. UPI-Now mandatory in ASBA for Retail Individual Bidders ("RIBs") applying through Registered Brokers, DPs & RTAs.

RIBs also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account. Bidders must ensure that their PAN is linked with Aadhaar and are in compliance with CBDT notification dated February 13, 2020 and press release dated June 25, 2021 **LEAD MANAGER OF THE ISSUE** REGISTRAR TO THE ISSUE COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER \*ASBA has to be availed by all the investors. UPI may be availed by Retail Individual Bidders. TRIDHYATECH For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form & abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning **LINK**Intime

ICICI Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the issue in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018, as amended. For UPI related gueries, investors can contact NPCI at the toll-free number: 18001201740 and mail ld: ipo.upi@npci.org.in CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 101 of the RHP. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the

on page 218 of the RHP. The process is also available on the website of IFSL and Stock Exchange in the General information Document. ASBA Forms can be downloaded from

the National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and can be obtained from the list of banks that is displaying on website of SEBI at www.sebi.gov.in. List of banks

supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in.

#### Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 307 of the RHP. **LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY:** Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorised share capital of the Company is 2,40,00,000/- consisting of 2,39,00,000 Equity shares of ₹ 10/- each and 1,00,000 Preference shares of Rs.10/- each. The issued, subscribed, and paid-up share capital of the Company before the Issue is ₹ 17,00,00,000 divided into 1,70,00,000 Equity Shares of ₹ 10 each. For details of the Capital Structure, see chapter titled "Capital Structure" beginning on page 53 of the RHP.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM: Given below are the names of the signatories of the Memorandum of Association of the Company and the number of Equity Shares subscribed by them at the time of signing of the Memorandum of Association of our Company: Vinay Shivji Dangar – 3420 Equity Shares, MSP IT Concepts Pvt. Ltd. - 3160 Equity Shares, Tridhya Consultancy LLP - 3420 Equity shares aggregating to 10,000 Equity Shares of ₹ 10 each.

LISTING: The Equity Shares issued through the Red Herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE emerge") in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, as amended from time to time. Our Company has received an approval letter dated June 13, 2023, from NSE for using its name in the Offer Document for listing of our shares on the Emerge Platform of NSE. For the purpose of this Issue, the Designated Stock Exchange will be the NSE. DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the issue is being made in terms of chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018,

the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Offer Document. Hence there is no such

specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire Disclaimer Clause of SEBI beginning on page 199 of the Red Herring Prospectus. **DISCLAIMER CLAUSE OF NSE:** It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed of construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Document. The investors are advised to refer to page 199

GENERAL RISK: Investments in Equity and Equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Issue. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Equity Shares issued in the Issue have not been recommended or approved by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to the section "Risk Factors" beginning on page 19 of the RHP.

## INTERACTIVE FINANCIAL

## **SERVICES LIMITED**

612, 6th Floor, Shree Balaji Heights, Kokilaben Vyas Marg, Ellisbridge, Ahmedabad-380 009, Gujarat, India

**Telephone**.: +91 79-46019796 Web Site: www.ifinservices.in

**Investor Grievance Email:** info@ifinservices.in

**Contact Person:** Mr. Pradip Sandhir

**SEBI Reg. No.:** INM000012856

Email: mbd@ifinservices.in

CIN: L65910GJ1994PLC023393

Address: C- 101, First Floor, 247 Park, L.B.S Marg, Vikhroli (West), Mumbai – 400083 **Tel No.:** +91 8108114949 Website: www.linkintime.co.in

**Investor Grievance Email:** tridhyatech.ipo@linkintime.co.in **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Reg. No.:** INR000004058

CIN: U67190MH1999PTC118368

**Mobile No:** +91 97277 39840 **E-Mail:** tridhyatech.ipo@linkintime.co.in **Website:** www.tridhyatech.com **E-mail:** grievance@tridhyatech.com Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer, BRLMs or the Registrar to the Issue in case of any pre-

Tridhya Tech Limited

T-Junction 200' S. P. Ring Road, Bopal,

Ahmedabad-380058, Guiarat, India.

beneficiary account, non-receipt of refund orders or non-receipt of funds by electronic mode. AVAILABILITY OF RHP: Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factor contained therein, before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus shall be available at the website of Stock Exchange www.nseindia.com,

Registered Office: 401, One World West, Near Ambli

Issue or post Issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Tridhya Tech Limited (Telephone: +91 97277 39840) BRLM: Interactive Financial Services Limited (Telephone: +91 79-4601 9796), Syndicate Member: Beeline Broking Limited (Telephone: 07966664040), Registered Brokers, RTA and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the websites of, NSE (www.nseindia.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI. **SYNDICATE MEMBER:** Beeline Broking Limited

PRIVATE LIMITED

BANKERS TO THE ISSUE/SPONSOR BANK/ESCROW COLLECTION BANK/PUBLIC ISSUE BANK/REFUND BANK: ICICI Bank Limited All capitalised terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the RHP.

> For TRIDHYA TECH LIMITED On Behalf of the Board of Directors Sd/-**Ramesh Marand**

Managing Director DIN: 07235447

Bhanvi Choudhary

Place: Ahmedabad **Date: June 24, 2023** TRIDHYA TECH LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public

offering of its Equity Shares and has filed the RHP with Registrar of Companies, Ahmedabad on June 20, 2023. The RHP shall be available on the website of the BRLMs to the issue at www.ifinservices.in and websites of NSE i.e. www.nseindia.com. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 19 of the RHP. Potential investors should not rely on the RHP for making any investment decision. The Equity Shares offered in the issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and

unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

financialexp.epap.in

of the RHP for the full text of the Disclaimer Clause of NSE

the website of Book Running Lead Managers www.ifinservices.in and from the Registered Office of the Company.

New Delhi

(आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, कंपनी के प्राधिक अधिकारी द्वारा यहा इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं / सह-उधारकर्ताओं को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सुचना में सांकित राशि व प्रतिभुगतान हेतु एक मांग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकत तथा जनसाधारण को सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण रतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन—देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन, यहां इसमें निम्न अंकिताानुसार एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है. यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेत निर्धारित तिथि से पर्व. किसी भी सम समस्त लागतों. प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल-एचएफएल" को देय धनराषियों का पर्ण भगतान कर देता है. तो ऐसी स्थिति ग ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभृत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और ''आईआईएफएल–एचएफएल'' द्वारा प्रतिभृत

परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व वि	क्रियार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।			
उधारकर्ता(ओं) / सह—उधारर्ता(ओं) का नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराषि (रु.)	मांग सूचना	अधिग्रहण की तिथि
श्री अमित कुमार विधार्थी, श्रीमती सिंधु देवी श्वेता इंजीनियरिंग वर्क्स	संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंशः जो भूखंड सं. 124 व 125 के भाग के रूप में हैं, जिनका भूमि क्षेत्राधिमापन 909 वर्ग फुट है एवं कॉर्पेट क्षेत्राधिमापन 100 वर्ग फुट,	(रुपये आठ लाख नब्बे	की तिथि	20-
(प्रॉस्पेक्ट नं. 851696)	खसरा सं. 10 / /1, 9 / 2, 10, 9 / /6, 7, 8 / 1 / 1 मौजा समयपुर तहसील बल्लभगढ़ जनपद फरीदाबाद,		अप्रै. —2023	<sub>20</sub> जून— 2023
यन्य विकामां के निम कामा	121004, हरियाणा, भारत में स्थित है।			

जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली तथा/अथवा निगमित कार्यालयः भूखण्ड सं. 98, फेज–IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा रे

#### आईबीसी, 2016 के तहत परिसंपत्तियों के असाइनमें ट / हस्तांतरण की सूचना मैसर्स एक्सक्लूसिव फाइवर्स लिमिटेड (परिसमापन में) सीआईएन:U74999DL2004PLC125846

बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली — 110002

किसी संसाधन के आधार पर" असाइनमेंट के लिए पेश किया जा रहा है। आईबीबीआई परिसमापन प्रक्रिया विनियम, 2016 के विनियमन 37ए के तहत, तुरंत वसूली योग्य

यदि कोई हो, भी शामिल है, माननीय एनसीएलटी, पीठ-॥, नई दिल्ली के समक्ष अधिमान्य लेनदेन, कम मुल्य वाले लेनदेन, जबरन वसली क्रेडिट लेनदेन या धोखाधडी के संबंध में लंबित कार्यवाही में या परिसमापन प्रक्रिया विनियमों के विनियम 37क के तहत विनिदष्ट तरीके से गलत तरीके से व्यापार करना, आईबीसी कोड के अनुसरण में या इसी तरह या उसके तहत जारी किए गए किसी भी अन्य

केवाईसी घोषणा और अनुलग्नक प्रस्तुत करना	24-06-2023 to 08-07-2023
चर्चा बैठक / उचित जांच (इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि वे पूर्व सूचना के साथ कार्य समय के भीतर यानी दोपहर 12:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक अघोहस्ताक्षरी परिसमापक के कार्यालय में आए)	
प्रस्ताव जमा करने की अंतिम तिथि	20-07-2023
इक्छक पार्टियाँ akash@kico.net या exclusivefibers.cim@oma	il com पर रीमेल के माध्यम से

सचना दस्तावेज के अधीन होगा।

दिनांक: 23.06.2023 आकाश सिंघल, परिसमापक आई बीबीआई पंजीकत संख्या :IBBI/IPA-001/IP-N00137/2017-18/10279 फोनः +91-9868145676, ईमेलः akash@kjco.net, exclusivefibers.cirp@gmail.com

### पंजीकृत कार्यालयः 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 ("नियमावली ") के नियम 3 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") की धारा 13(2) के तहत

1. लियो इंजीनियरिंग सर्विसेज, 2 बी–253, बी चौथी मंजिल, रामा मार्केट, मुनिरका विलेज, दिल्ली–110067 2. श्री बिशन सिंह असवाल, श्री विहार ऊंचापुल, हिम्मतपुर, मल्ला हलद्वानी, उत्तराखंड — 263139

टीसीएफएसएल द्वारा आपको दिए गए निर्माण उपकरण वित्त (सीईक्यू फाइनेंस) ऋण के तहत ब्याज सहित

पैसे मात्र) टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (इसके बाद "टीसीएफएसएल" के रूप में संदर्भित) ैको ऋण खाता संख्या 7000435976 और  $ext{TCFCE}0310000010537796$  के माध्यम से देय है। हमारे 29.05.2020 को एनपीए खाता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। टीसीएफएसएल की देय राशि का भूगतान करने में आपके चक के कारणभारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनसार मैंने स्वयं टाटा कैंपिटल के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसरण में उपरोक्त अधिनियम के धारा 13(2) के तहत 14.06.2023 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसर और उनचास पैसे मात्र)एवं भविष्य के ब्याज एवं लागत की राशि को नोटिस के 60 दिनों के अंदर भगतान करने को कहा गया है। जिसमें विफल होने पर टीसीएफएसएल नीचे वर्णित संपत्ति पर टीसीएफएसएल के पक्ष में आपके द्वारा निर्मित प्रतिभृति हित प्रवर्तन सहित उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत विवरणित सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा

| वाहन–1: पंजीकरण संख्याः एनएल–01–ए–7992, चेसिस नं. 0011721, इंजन न W09728000DEL05109, निर्मित : लिबहरर-एक्सपोर्ट एजी, वाहन का रंगः पीला, मॉडलः एलटीएम 1050-क्रेन।

वाहन—2ः पंजीकरण संख्याः एनएल—01—डी—0200, चेसिस नं. 0014000, इंजन नं. 4041410601,निर्मितः लिबहरर एक्सपोर्ट एजी, वाहन का रंगः पीला, मॉडलः लिबहरर एलटीएम1160—मोबाइल क्रेन। 13(2) के तहत इस नोटिस के 60 दिनों के भीतर उपर्युक्त दायित्व का निर्वहन करने के लिए कहा जात है, जिसके विफल होने पर टीसीएफएसएल उपरोक्त अधिनियम के तहत धारा 13(4) के तहत सभी य किसी भी अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको यह भी सचित किया जाता है कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(13) की शर्तों के अनुसार, आप बिक्री, पट्टे या अन्यथा उपरोक्त प्रतिभृति संपत्तियों को हस्तांतरित

स्थान : दिल्ली दिनांकः 22 / 06 / 2023 कृते टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14 Rohini, New Delhi-110085 | Tel.:011-27860681

CIN:L74110DL1982PLC013956

## NOTICE

## EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

members of Goalpost Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, July 18, 2023 at 11: 00 A.M at 324A, III<sup>™</sup> Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 ("the Meeting").

registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date i:e Friday, June 16,2023. Notice is available on the website of the Company (www.goalpostltd.in).

vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.goalpostltd.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

## RECORD DATE FOR EGM

NOTICE is also hereby given pursuant to applicable provision of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Tuesday 11th July, 2023 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the EGM.

Goalpost Industries Limited

Pawan Kumar Mittal (Director)

अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत। कथित नियमों के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आईआईएफएल होम फाइनेंर लिमिटेड (आईआईएफएल एचएफएल) (पूर्व की इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत प्राधिकारी ने कथित अधिनयम की धारा 13(2) के तहत सर्जदार(रों) रं उन्हें निर्गत संबंधित मांग सूचना(ओं) में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सूचनाएं निर्गत की हैं। उपर्युक्त के संदर्भ में एतद्वारा कर्जदार(रों) को एक बार पुनः भुगतान की तिथि तक मांग सूचना की तिथि(यों) से भावी ब्याज सहित यहां नीचे उल्लिखित राशियों का इस सूचना के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने के लिए कहा जाता है। कर्जदार(रों), मांग सूचना की तिथि तक बकाया राशि और ऋण राशि के पुनर्भुगतान की ओर प्रस्तावित प्रतिभृति का विवरण निम्नलिखित है :-

मांग सूचना की तिथि एवं राशि लाख छब्बीस हजार नौ सौ इकतीस मात्र) 956370 के 📗 क्षेत्रफल माप 255 वर्ग गज (2295 वर्ग फीट) रेलवे ट्रैक वाली गली के पास् साड़ी सेंटर, श्रीमती मंजू तोमर, लिए और रु. 98.043/- (रुपये अठानवे हजार तैंतालीस पराना लाल डोरा, गांव भोरगढ, उत्तर पश्चिम दिल्ली-110040, दिल्ली, भार श्रीमती रोशनी देवी, (प्रॉस्पेक्ट मात्र) 958609 के लिए और रु. 15,95,977/- (रुपये नंबर 956370, 958609 एवं पंद्रह लाख पिचानबे हजार नौ सौ सतहत्तर मात्र) IL10251842) IL10251842 के लिए श्रीमती रानी 21-जन-2023. **अग्रलिखित संपत्ति का समस्त भाग**: तीसरी मंजिल पर फ्लैट नंबर टीएफ श्री प्रकाश चंद टाक, प्रकाश प्लॉट नंबर डी -358 पर पीछे की ओर रियर (एम आई जी ) प्रकार क्षेत्रफल 48

रु. 19.99.737/-संस ब्रशवेयर, (प्रॉस्पेक्ट नंबर वर्ग फुट, कारपेट एरिया 520 वर्ग फीट, बिक्री योग्य क्षेत्र 605 वर्ग फीट, ब्लॉक (रुपये उन्नीस लाख निन्यानबे हजार IL10192902) डी, आवासीय कॉलोनी इंद्रप्रस्थ, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तहत कर्जदारों के पूर्ण जोखिम, लागतों तथा परिणामों पर उपर्युक्त प्रतिभृत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है। अधिक विवरण के लिए अधिकृत प्राधिकारी से सम्पर्क करें : शाखा कार्यालय प्लॉट सं. 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ रोड, जगआर शोरूम के पास. मोती नगर, नई दिल्ली/ ए-1सी तथा ए-1डी, दूसरी मंजिल, नोएडा सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बुद्ध

नगर-201301 अथवा कॉर्पोरेट कार्यालय : एचएफएल टॉवर, प्लॉट नं. 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा। ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमि

#### POONAWALLA HOUSING FINANCE Agna Char, Agni Pehchan

स्थानः आगरा, उ.प्र. तिथि: 24.6.2023

गुनावाला हाउसिंग फाइनास लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड विदित) कॉर्पोरेट कार्यालय: 602, छठा तल, जीरो वन आई पार्क, क्रम सं. 79/1, घोरपाडी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8(1) (अचल सम्पत्ति के लिये)

**जैसा कि,** वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 (यहां के बाद ''उक्त अधिनियम'' वर्णित) के अंतर्गत पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना नीचे वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सृचित किया जाता है कि आज, 20 जून, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभित हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिये पूनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड) के चार्ज के

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है:

क्रम सं.		सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि	सांविधिक मांग सूचना तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.)
1.	सुनीश वर्मा,	महावीर नगर, मौजा सिकन्दरपुर मुस्तिकल, तहसील एवं जिला आगरा में स्थित सम्पत्ति प्लॉट नं. 2 एवं प्लॉट नं. 1 का भाग, खसरा नं. 202, एरिया माप 100 वर्ग यार्ड्स का सभी भाग तथा हिस्सा। प्लॉट की चौहद्दीः पूर्वः प्लॉट नं. 3, पश्चिमः गोपाल की सम्पत्ति का शेष भाग, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः 18 फीट चौड़ा रास्ता		14.2.2023	ऋण सं. HF/0094/H/20/100234 वसूली तक 15.25% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 14.2.2023 को देय रु. 572151.51/- रु. पांच लाख बहत्तर हजार एक सौ इक्यावन पैसे इक्यावन मात्र)

पनावाला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड (पर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड विदित

#### ई—नीलामी सह बिक्री हेतु सार्वजनिक सूचना (परिशिष्ट – ४ क) (नियम 8(6))

आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वत: इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस: लिमिटेड के नाम से झात) (आईआईएफएल एक्एफएल) कार्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर 98, तद्योग विहार, फेज-४, मुस्त्याम-122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : युनिट नंबर 308, तृतीय तल, पदम बिजनेस पार्क, प्लॉट नंबर आईएनएस-1, सेक्टर-12ए, आवास विकास, शिकन्दरा योजना, आगरा–282007 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री वित्तीय आहितयों का प्रतिभतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (इसमें आर्ग 'अधिनिवम' कहा गया है) के तहत। जबकि आईआईएफएल - एचएफएल के प्राधिकत अधिकारी ('एओ') ने निम्नलिखित ऋण खातों / प्रॉस्पेक्टर नंबर्स में अधिनियम की धारा 13(2) के तहत निम्नवर्णित सम्पत्ति / सम्पत्ति / सम्पत्ति / सम्पत्ति का कब्जा उनको आईआईएफएल – एचएफएल की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसी है जहां है एवं जैसी है जो है आधार पर बेचने के अधिकार सहित प्राप्त कर लिया था। अधोहस्ताक्षरी द्वारा यह विक्री वेबसाइट : www.bankeauctions.com पर उपलब्ध कराए गए

कर्जवार / सह-	मांग सूचना तिथि		अबल सम्पत्ति/	भौतिक कब्जा	सुरक्षित मूल्य	
कर्जांदार / गारंटर 1 श्री यतेन्द्र सिंह 2 श्री इंसी देवी	और राशि 19-10-2019 %.			की तिथि 0701-2023	<b>स. 20,77,200</b> /- (क्रमए बीर	
	25.40,759.00/- (रूपए पच्चीस लाख चालीस हजार	445000 E-32	17, परिमाप 104 वर्ग मीटर, खसरा 8 का भाग, गुलाब नगर, मीजा	01-06-2023 तक कुल बकाया शक्ति	लाख सतहत्तर हजार दो सौ मात्र)	
3. अम्बिका छेट केरियर	सात सी उनसव मात्र)	नारायव, तहसील एत्मादपुर, जिला आगरा. क. 37,96,813/- (रूपए <b>वरोहर सर्ग</b>			धरोहर राशि जमा (ईएमडी)	
<ol> <li>जय अम्बे गामैट्स (प्रॉस्पेक्ट नंबर 847727)</li> </ol>	बोली वृद्धि राशि (भू		स-282000 फल : 1125 वर्ग कीट ; निर्मित 731 वर्ग कीट)	सैतीस लाख डियानवे हजार आव सी तेरह मात्र)	■ 2,07,720 /— (रूपए पो लाख सात हजार सात सी बीस मात्र)	
	त के निरीक्षण की तिथि		ईएमडी अंतिम तिथि 10-07-2023 साम ह सर्वे स्ट		मी की तिथि/समय	

भूगतान की विधि : ईएमडी भूगतान केवल ऑनलाइन विधि से करने होंगे। भूगतान करने के लिए आप https://www.bankeauctions.com पर जाएं और केवल सम्पत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भूगतान करें। नोट : हर सम्पत्ति के लिए एक अलग भूगतान लिंक है। आप सुनिश्चित करें कि आप उस सम्पत्ति का लिंक उपयोग कर रहे हैं, जिसको आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदना चाहते हैं। भुगतान के लिए, सफल बोली के बाद, आपको भुगतान आरटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से करना होगा। खाता विवरण निम्नानुसार है : क) खाते का नाम : आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड ख) बैंक का नाम स्टैंकर्ड चार्टर्ड बैंक लिमिटेड, ग) खाता नंबर : 9902879 प्रॉस्पेक्ट नंबर द्वारा अनुसरित, घ) आईएकएससी कोड :- एससीबीएल0036001 ञ) बैंक पता : स्टैंकर्ड चार्टर्ड बैंक, 90 एम.जी. शेंड, फोर्ट, मुम्बई-400001

नियम और शर्ते :-1. ई-नीलामी में माग लेने के लिए इच्छक बोलीदालाओं को अपना विवरम सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के पास पर्याप्त अग्रिम में पंजीकृत करवाना

होगा तथा लॉगइन खाता, लॉगइन आईडी और पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छ्क बोलीदाताओं को अपना "निविदा फार्म" ईएमडी के भूगतान विवरण, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपरिवर्णित शास्त्रा कार्यालय में जमा / प्रेषित करना होगा। . बोलीदाता अपनी ऑफर कालम 'बोली वृद्धि राशि' में वर्णित राशि के गुणजों में बढ़ा सकते हैं। नीलामी समाप्त होने से 5 मिनट पहले कोई बिढ जाने पर समाप्ति का समय

. सकल बोलीदाता को बोली राशि की 25 प्रतिशत राशि (ईएमडी समायोजन के बाद) एसी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार करने के 24 घंटे के मीतर और बोली राशि प्रतिशत राशि प्रतिभूत लेनदार हारा बिक्री की पुष्टि की तिथि से 15 दिन के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा और भूगतान निर्धारित विधि से करने होंगे।

खरीदार को सम्पत्ति के साथ संबंधित उपकर, लागू स्टाम्प ड्यटी, फीस तथा अन्य कानूनी बकाया अथवा अन्य बकाया जैसेकि म्युनिसिपल कर, बिजली प्रभार, भूमि तथा अन्य सभी अनुषंगी लागतें, प्रभार सभी करों तथा उपकरों सहित वहन करने होंगे। बोलीदाताओं को ई-नीलामी विक्री प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए अपनी बोली जन्म करने से पहले नीलामी विक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्ती तथा आवेदन प्रपन्न के लि वेबसाइट https://www.bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने की सलाह दी जाती है।

विस्तृत विवरण सहायता प्रक्रिया तथा ई-मीलामी के संबंध में ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए संमायित बोलीदाता सेवा प्रदाता की ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com सपोर्ट हेल्प लाइन नंबर : 7291981124/25/26 पर सम्पर्क करें। किसी सम्पत्ति विवरण सम्पत्ति निरीक्षण और ऑनलाइन बिव इत्यादि के संबंध में पछताछ के लिए आईआईएफएल एकएफएल टील की नंबर 1800 2672 499 पर सोमवा

से शुक्रवार के बीध 09:30 बजे से 18:00 बजे तक कील करें अथवा ई-मेल : auction.hl@iifl.com को मेल लिखें। एतदहारा उपरोक्त कर्जदारों को शबना दी जाती है कि भौतिक काजा लेते समय प्रतिमृत आरित में रखी घरेलू वस्तुएं 7 दिन के मीतर हटा लें, अन्यवा आईआईएफएर एचएफएल परिस्थितियों के अधीन सन्परित की किसी अति के लिए जिम्मेदार नहीं होगी एतदद्वारा कर्जदारों को आगे सूचना दी जाती है कि उपरोक्त वस्तूएं प्राप्त करने में बुक की रिवर्ति में उनको विधि सम्मत इंग से बंचा जाएगा।

10. सफल बोलीदाता / गीलामी खरीदार द्वारा किसी भी चरण में निर्धारित समय के मीतर मुगतान में चूक की स्थिति में बिक्री रदद कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशि (ईएमडी सहित) जब्द कर ली जाएगी और सम्पत्ति की विक्री दोवारा की जाएगी।

11. एओ का बिना कोई कारण बताए निविदा / नीलामी स्थमित / निरस्त करने या नियम एवं शतौं में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है। निविदा / नीलामी के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में आईआईएकएल-एचएकएल के एओ का निर्णय अंतिम माना जाएगा

सरफासी ऐक्ट, 2002 के नियम 9 (1) के तहत बिक्री हेतु 15 दिन का कानूनी नोटिस कर्जदार को अधिसुचित किया जाता है कि उपरिवर्णित राष्ट्रि अग्रतन ब्याज और अनुषंगी खर्चों के साध सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई, व्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

स्थान : आगरा तिथि : 24-06-2023 हत्ता /- प्राधिकृत अधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनैस लिमिटेड

अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई—नीलामी की सार्वजनिक सूचना

#### फाइनेंस लिमिटेड (पर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल-एचएफएल) निगमित कार्यालयः भूखंड सं. 98, उद्योग विहार, फेज-4 गडगांव, हरियाणा—122015 (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : ''कार्यालय सं. 1. प्रथम तल, महालक्ष्मी मेटो टॉवर, भखंड सं. सी–1, सेक्टर–4, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201010"/"भुखंड सं. 30/30ई, ऊपरी भू तल, मुख्य शिवाजी मार्ग, नजफगढ मार्ग, जगुआर शोरूम के समीप, मोती नगर, नई दिल्ली"/"ए-1सी एवं ए-1डी, द्वितीय तल, नोएडा, सेक्टर-16, नोएडा, गौतम बद्ध नगर-201301" के पास बंधककत अचल सम्पत्ति का विक्रय। जबकि आईआईएफएल-एचएफएल के प्राधिकत अधिकारी ("एओ") ने आईआईएफएल–एचएफएल की देयराषियों की वसूली हेतू, निम्नलिखित सम्पत्ति/यों का ''जैसी हैं जहां हैं आधार एवं जैसी हैं जो हैं आधार'' पर विक्रय करने के एकाधिकार के साथ निम्नलिखित ऋण खातों / प्रोस्पेक्ट नंबरों के तहत अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत सूचना के अनुपालन में उनका अधिग्रहण कर लिया था। विक्रय जो है वह अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा वेबसाइटः www.bankeauctions.com पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से किया जाएगा।

आरक्षित मूल्य मांग सूचना तिथि अचल संपत्ति / प्रतिभूत सह—ऋणेकर्ता (ऑ) / गारंटर(रों) के नाम की तिथि एवं राशि परिसंपत्ति का विवरण 24,17,000 / - ( 07—सितं.—2022 एवं 12—जून—2023 चौबीस लाख सत्रह 😎 22.98.693/- (रुपये बाईस लार यूनिट नं.- यूजीएफ-6 के रूप में सीधे हाथ तिथि 01-जून-2023 के हजार मात्र) अटठानबे हजार छह सौ की ओर / आगे स्थित है, जिसका अधिमाप . श्री करण कुमार धरोहर राशि अनुसार कुल बकाया तिरानबे मात्र) 55 वर्ग गज (आवत्त क्षेत्रफल) है. जो भखं जमा (धराज) सं. 20 21 28 29. कष्णा वाटिका. <u>डं</u>डाहेड रु. 28.75.540 /- (रुपये बोली वृद्धि राशि (प्रोस्पेक्ट नं. 884255) **रु. २,४१,७०० / —** (रुपये दो गाजियाबाद. उत्तर प्रदेश, भारत-201010 अट्ठाईस लाख पिचहत्तर र. 25,000 /-लाख इकतालिस हजार रिथत है (निर्मित क्षेत्रफल 495 वर्ग फट तः हजार पांच सौ चालीस मात्र) (रुपये पच्चीस हजार मात्र) कॉर्पेट क्षेत्रफल 396 वर्ग फट) सात सौ मात्र) **5. 22.78.000 /**— (रुपये 18—सितं.—2021 एव . श्री पवन कमार संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ⊽. 19,78,741/- (रुपये उन्नीस लाख प्रथम तल, फ्लैट नं. बी-29/21 पर बाईस लाख अट्ठहत्तर श्रीमती बबीता देवी तिथि 01-जून-2023 के अटठहत्तर हजार सात सौ इकता. अधिमापन 1139 वर्ग फुट, टीडीआई हजार मात्र) (प्रोस्पेक्ट नं. 722276) अनुसार कुल बकाया लिस मात्र) सिटी, कंडली सोनीपत, हरियाणा में स्थित धरोहर राशि लाख चौबीस हजार सात सौ जमा (धराज) बोली वृद्धि राशि छियानबे मात्र) **ह. 2,27,800 / —** (रुपये दो लाख सत्ताईस हजार (रुपये पच्चीस हजार मात्र) आठ सौ मात्र) **58,44,000 /** — (रुपये 02—सितं.—2021 एवं संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश ज श्री गिरीश पाल सिंह . **59,72,806**/- (रुपये उनसठ लाख अटठावन लाख चौवालीस की तिथि फ्लैट सं 902 के रूप में 9वें तल प 2. श्री अमृतपाल सिंह बहत्तर हजार आठ सौ छह मात्र) हजार मात्र) क्षेत्राधिमापन 2098 वर्ग फुट, टॉवर 14 10-मार्च-2022 . श्रीमती कविता सेंगर यूनिटेक हेबिटेट, सेक्टर-09, ग्रेट तिथि 01—जन—2023 के धरोहर राष्ट्रि महादेव ट्रेडर्स

नोएडा, 201308, उत्तर प्रदेश, भारत अनुसार कुल बकाया जमा (धराज) (प्रोस्पेक्ट नं. 883398) रिथत है (निर्मित क्षेत्रफल 2087 वर्ग फुट) बोली वृद्धि राशि 56,56,144 /- (रुपये छप्प **5.84.400 / —** (रुपये रु. 50,000 /-लाख छप्पन हजार एक सौ लाख चौरासी हजार (रुपये पचास हजार मात्र) चौवालीस मात्र) चार सौ मात्र) ई—नीलामी की तिथि/समय संपत्ति के निरीक्षण की तिथि धराज अंतिम तिथि 28-जुलाई-2023 को 11.00 बजे से 13.00 बजे 26—जुलाई—2023 को 5 बजे तक 24—जुलाई—2023 को 11.00—14.00 बजे

भुगतान का माध्यमः धराज भुगतानों को केवल ऑनलाइन विधि द्वारा किया जाना है। भुगतान करने के लिये आपको https://www.bankeauctions.com पर विजिट करना होगा और केवल संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति हेतु उपलब्ध लिंक के माध्यम से ही भुगतान करना होगा। टिप्पणीः प्रत्येक संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिये भुगतान लिंक पृथक है। सुनिश्चित करें कि आप उसी संपत्ति / प्रतिभूत परिसंपत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं, जिसे आपने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदने का इरादा किया है। सफल बोलीदान होने पर, शेष भुगतान के लिये, आपको आटीजीएस / एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना होगा। खातों के विवरण इस प्रकार हैं: क) खाता का नाम:- आईआईएफएल होम फाइनेंस लि. ख) बैंक का नाम - स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, ग) खाता सं: 9902879xxxxx, उसके बाद प्रोस्पेक्ट नंबर, घ) आईएफएससी कोड: SCBL0036001. ड) बैंक पता : स्टैंडर्ड चार्टड बैंक, 90 एम.जी. मार्ग, फोर्ट, मुंबई-400001

नियम एवं शर्ते:—

. ई—नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए इच्छूक बोलीदाताओं से अपेक्षा है कि वे अपने विवरणों को पर्याप्त समय पूर्व सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के साथ पंजीकृत कर लें और उन्हें इस हेतु लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी व पासवर्ड सुजित करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपने ''निविदा प्रेपत्र'', धराज के भुगतान विवरणों, केवाईसी एवं पैन कार्ड की प्रतियों के साथ ऊपर वर्णित शाखा कार्यालय में प्रस्तुत / प्रेषित करने होंगे।

बोलीदाताओं को अपने प्रस्ताव को, स्तंभ "बोली वृद्धि राषि" के अंतर्गत अंकित राषि के गुणक में बढ़ाना होगा। यदि नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनटों में बोलीदान किया जाता है तो समापन समय 5 मिनटों के लिए स्वतः ही बढ जाएगा।

सफल बोलीदाता को बोली राषि की 25 प्रतिषत राषि (धराज का समायोजन करने के उपरान्त) एओ द्वारा बोली मूल्य की स्वीकृति के 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी तथा बोली राषि की शेष 75 प्रतिषत रकम प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय की अभिपृष्टि किए जाने की तिथि से 15 दिवसों के अंदर जमा करनी होगी। समस्त जमाएं तथा भुगतान जो हैं, वो भुगतान के निर्धारित प्रारूप के तहत किए जाएंगे।

। क्रेता को सम्पत्ति से संबंधित समस्त करों एवं दरों लागतों सहित उपकर, लागू स्टांप शुल्क, शुल्कों एवं किसी अन्य संवैधानिक देयराषि अथवा अन्य देयताओं जैसे नगर निगम कर, विद्युत

प्रभारों, भूमि एवं समस्त अन्य आकस्मिक लागतों, प्रभारों का भुगतान वहन करना होगा। बोलीदाताओं को सलाह है कि वे ई-नीलामी विक्रय कार्यवाहियों में भाग लेने के लिए अपनी बोलियां जमा करने से पहले नीलामी विक्रय के विस्तृत नियमों एवं शर्तों तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com and https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देख लें।

विवरणों, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रषिक्षण के लिए प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं, वे सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी support@bankeauctions.com, सहायत हेल्पलाइन नंबर्स: @7291981124/25/26 पर संपर्क कर सकते हैं। सम्पत्ति विवरणों, संपत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइन बोली इत्यादि से संबंधित किसी भी प्रश्न/पूछताछ के लिए आईआईएफएल एचएफएल को टोल फ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवा

से शुक्रवार के मध्य प्रातः 9.30 बजे से लेकर के साय 18.00 बजे तक कॉल करें अथवा ई-मेल: auction.hl@iifl.com पर मेल लिखें। एतदुद्वारा उपरोक्त ऋणकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे उन घरेलू वस्तुओं को 7 दिवसों के अंदर एकत्र कर लें, जो भौतिक अधिग्रहण किये जाने के समय पर प्रतिभूत परिसम्पत्ति

रथल पर पड़ी हुई होंगी. अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल किसी भी परिस्थित में सम्पत्ति की किसी हानि हेत उत्तरदायी नहीं होगी। 9. एतदद्वारा उधारकर्ता /ओं को आगे यह सुचित किया जाता है कि यदि वे उक्त वस्तुओं को उठाने /समेटने में विफल रहते हैं तो उन्हें विधि–व्यवस्था के अनुसार बेच दिया जायेगा। 10.उपरोक्त अनुबंधित समय के अंदर सफल बोलीदाता / नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चूक किए जाने की स्थिति में, विक्रय निरस्त कर दिया जाएगा तथा पहले चुकता की

गई राषि (धराज सहित) को जब्त कर लिया जाएगा तथा सम्पत्ति को फिर से बेचने के लिए रख दिया जाएगा। 11.एओ के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वे बिना कोई कारण बताए ही निविदा / नीलामी के नियमों एवं शर्तों को स्थगित / निरस्त कर सकते हैं अथवा उन्हें बदल सकते हैं। निविदा / नीलार्म

में किसी विवाद की स्थिति में आईआईएफएल-एचएफएल के एओ का निर्णय अंतिम होगा। सरफॉएसि अधिनियम 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत 30 दिवसीय सांविधिक विक्रय सूचना

ऋणकर्ता को एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि वे निविदा ⁄ नीलामी की तिथि से पूर्व ऊपर अंकितानुसार राषि का अद्यतनीकृत ब्याज एवं आनुषंगिक व्ययों के साथ भुगतान कर दें। भुगता करने में विफल रहने पर, सम्पत्ति की नीलामी की जाएगी/उसे बेच दिया जाएगा तथा शेष देयराषियों, यदि कोई निकलती हों, की वसूली ब्याज एवं लागत के साथ की जाएगी। स्थान : गाजियाबाद / सोनीपत / नोएडा दिनांक : 24-जून-2023 प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

# एवोजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड

सीआईएन: L60200DL2010PLC198327 रजि. कार्यालयः ऑफिस नंबर 25, डी.डीए मार्केट, सविता विहार दिल्ली 110092 वेबसाइटः www.avglogistics.com, ईमेल आईडीः praveen@avglogistics.com

असाधारण आम बैठक की सूचना का शृद्धिपत्र एवीजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ('कंपनी') ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए कंपनी के अपने सदस्यों की पहली असाधारण आम बैठव ('ईजीएम') बुलाने के लिए 03 जून 2023 को एक नोटिस जारी किया, जो शुक्रवार, 30 जून 2023 को अपराह्न 3.00 बजे, 102, पहली मंजिल

झिलमिल मेट्रो कॉम्प्लेक्स, दिल्ली-110095 पर आयोजित होने वाली है। कंपनी अधिनियम, 2013 को इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमें और लागु सीमा तक अन्य वैधानिक प्रावधानों, यदि कोई हो, के साथ पठित प्रावधानों के अनुपालन में ईजीएम की सुचना ('ईजीएम नोटिस') कंपनी के शेयरधारकों को भेज दी गई है। ईजीएम नोटिस के लिए यह शुद्धिपत्र ('शुद्धिपत्र') सेबी आईसीडीआर विनियमों के प्रावधानों के अनुसार यहां उल्लिखित अतिरिक्त विवरणों को संशोधित करने/शामिल करने के लिए नोटिस देने के लिए जारी किया जा रहा है: 1. मद नंबर 1 और मद नंबर 2 के लिए व्याख्यात्मक विवरण के बिंदु डी में (जिस कीमत पर आवंटन प्रस्तावित है और जिस आधार पर कीमत

पर पहुंचा गया है:) निम्नलिखित पैरा को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए और निम्नानुसार पढ़ा जाना चाहिए: स्वतंत्र पंजीकृत मुल्यांकनकर्ता की रिपोर्ट :

पर सचीबद्ध हैं और आईसीडीआर विनियमों के अनुसार एनएसई पर अक्सर कारोबार किया जाता है।

यह ध्यान में रखते हुए कि आवंटन कंपनी की पूरी तरह से डाइल्युटेड शेयर पूंजी के पोस्ट इश्यु के 5% से अधिक होगा, एक आवंटी को जार्र किया जाने वाले प्रति परिवर्तनीय वारंट का निर्गम मुल्य 222.60/- रुपये (दो सौ बाईस रुपये और साठ पैसे मात्र) होना चाहिए और प्रस्तावित आवंटियों को चार्टर्ड अकाउंटेंट (आईबीबीआई पंजीकृत संख्या आईबीबीआई/आरवी/06/2019/11170) एफसीए पायल गाडा कार्यालय एस-15,2वीं मंजिल, सेज प्लाजा, मार्वे रोड, मलाड (पश्चिम), मुंबई-400064, महाराष्ट्र द्वारा 03 जुन 2023 की मुल्यांकन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है, जिसके अनुसार न्युनतम मुल्य रु. 222.57/- (दो सौ बाईस रुपये और सत्तावन पैसे मात्र) प्रमाणित किया गया है ज आईसीडीआर विनियम ('मूल्यांकन रिपोर्ट') के विनियमन 166ए के अनुसार था। मूल्यांकन रिपोर्ट सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होर्ग और इसे कंपनी की वेबसाइट पर लिंक http://www.avblobistics.com/images/pdf/Valuation%20Report AVG%20Logistics%20Limited.pdf पर देखा जा सकता है। कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ('एनएसई')

प्रति इक्विटी शेयर मुल्य की गणना के उद्देश्य से, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में, प्रासंगिक तिथि से पहले के 90 ट्रेडिंग दिनें

के दौरान, कंपनी के इक्विटी शेयरों के संबंध में सबसे अधिक ट्रेडिंग वॉल्युम होता है। जिस कीमत पर इक्विटी शेयर आवंटित किए जाएंगे क निम्नलिखित में से अधिक से कम नहीं होगी: (क) प्रासंगिक तिथि से पहले. एनएसई पर उद्धत कंपनी के इक्विटी शेयरों की 90 (नब्बे) टेडिंग दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत. यानी

191.09 रुपये (एक सौ इक्यानबे रुपये और नौ पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर: (ख) प्रासंगिक तिथि से पहले, एनएसई पर उद्धत कंपनी के इक्विटी शेयरों की 10 (दस) ट्रेडिंग दिनों की मात्रा भारित औसत कीमत, यान

222.57 रुपये (दो सौ बाईस रुपये और सत्तावन पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर।

तदनुसार, आईसीडीआर विनियमन के विनियमन 164 के अनुसार न्यूनतम कीमत 222.57 रुपये प्रति परिवर्तनीय वारंट/इक्विटी शेयर है, ज उपरोक्त दो कीमतों से अधिक है और 222.60 रुपये की कीमत का मुद्दा आईसीडीआर विनियमन के संदर्भ में उचित है।

साथ ही, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 10(1)(सी) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि अधिमानी मुद्दे का मुल्य निर्धारण एक पंजीकृत मुल्यांकक की मुल्यांकन रिपोर्ट द्वारा निर्धारित किया जाना है। हालाँकि, उस उपरोक्त अनुच्छेद के तहत कोई विशिष्ट पद्धति निर्धारित नहीं है प्रति परिवर्तनीय वारंट का निर्गम मूल्य 222.60 रुपये हैं, जो आईसीडीआर विनियमों के अध्याय रु के प्रावधानों के साथ-साथ कंपनी के आर्टिकल्प ऑफ एसोसिएशन के संदर्भ में, पंजीकृत मृल्यांकक द्वारा निकाले गए इक्विटी शेयरों के न्यूनतम फ्लोर मृल्य से अधिक है।

वारंट के लिए समायोजनः ऊपर निर्धारित मूल्य और वारंट के प्रयोग पर आवंटित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की संख्या उचित समायोजन वे अधीन होगी, जैसा कि समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों और कानूनों के तहत अनुमित है।

2. ईजीएम नोटिस के पृष्ठ संख्या 33 पर व्याख्यात्मक विवरण (अनुलग्नक ए देखें) में, इसे निम्नानुसार प्रतिस्थापित और पढ़ा जाना चाहिए: शेयरधारिता पैटर्न पैटर्न (प्रस्तावित) का % वाले परिवर्तनीय वारंट की सं. % (\*) A प्रमोटर तथा प्रमोटर समृद्ध व्यक्तिगत/अविभाजित हिन्दु परिवा 80,59,200 72,09,200 उप-योग (A)(1) 72,09,200 8.50.00 80,59,200 d विदेशी पोर्टफोलियो निवेशव e कोई अन्य (निर्दिष्ट करें उप-योग (A)(2 8.50.000 80,59,200 27,30,700 23.1 27,30,700 21,600 भविष्य निधि/पेंशन नि i कोई अन्य (निर्दिष्ट करें उप-योग (B)(1) 27.52.300 27,52,300 2 केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/भारत के राष्ट्रपति उप-योग (B)(2) 3 गैर-संस्थान 13,08,840 17,08,840 B आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी विदेशी निक्षेपागार (डीआर धारक) (सन्तुलनक E कोई अन्य (निर्दिष्ट करें) 73,440 1,00,000 1,73,440 6,425 6,425 16,590 16,590 अपवासी भारती 1,69,854 ,69,854 2,804 2,804 2,35,818 3,60,818 1,25,000 6,25,00 24,38,77 उप-योग (B)(3) 18.13.77 45.66.071 6.25.000 51,91,071 39.1 कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (B)=(B)(1)+(E

ईजीएम नोटिस का यह शुद्धिपत्र ईजीएम नोटिस का एक अभिन्न अंग होगा, जिसे पहले ही कंपनी के शेयरधारकों को प्रसारित किया चुका है और इसकी तारीख से, ईजीएम का नोटिस हमेशा इस शृद्धिपत्र के साथ पढ़ा जाएगा। शृद्धिपत्र में प्रयक्त सभी परिभाषित शब्दों वही अर्थ है जो ईजीएम नोटिस में बताया गया है।

1,17,75,271 100.00

यह शुद्धिपत्र उस स्थान पर राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र और क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया जा रहा है जहां कंपनी व पंजीकृत कार्यालय स्थित है और इसे दोनों स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड ('बीएसई') और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिय लिमिटेड ('एनएसई') की वेबसाइट और कंपनी की वेबसाइट www.avglogistics.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ईजीएम नोटिस की अन्य सभी सामग्रियां, इस शुद्धिपत्र द्वारा संशोधित या पूरक को छोड़कर, अपरिवर्तित रहेंगी। बोर्ड के आदेश दिनांक: 23.06.2023 एवीजी लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के लि पंजीकत कार्यालय

संजय गुप्त

प्रबंध निदेश

ऑफिस नंबर 25, डी.डी.ए मार्केट, सविता विहार. दिल्ली 110092 वेबसाइटः www.avglogistics.com

(2)+(B)(3)

कुल शेयरधारिता (A+B)

अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी की सार्वजनिक सूचना वित्तीय आस्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्माण एवं प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनयम. 2002 (इसके पश्चात ''अधिनयम'') के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पर्व का इण्डिया इन्फोलाइ-हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (आईआईएफएल-एचएफएल) कॉर्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नं. 98, फेज-क्स, उद्योग विहार, गुरुग्राम-122015, (हरियाणा) तथा शाखा कार्यालय : प्रथम तल, टेरा टॉवर, भुतेश्वर रोड, मनोहर परा, मथरा–281001/ ए–1सी तथा ए–1डी, 2सरा तल, नोएडा सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बद्ध नगर–201301 के पास बंधक अचल सम्पत्ति की बिक्री। जैसा कि आईआईएफएल एचएफएर के अधिकत प्राधिकारी (''एओ'') ने आईआईएफएल-एचएफएल के बकायों की वसली के लिए अधिनियम की धारा 13(2) के तहत जारी सचना के अनुसार निम्नलिखित ऋण खातों/प्रॉस्पेक्ट सं यहाँ नीचे उल्लिखित सम्पत्ति का ''जहाँ है जैसे है'' तथा ''जो है यही है'' आधार पर बिक्री करने के अधिकार सहित कब्जा कर लिया था। यह बिक्री अधीहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइ

www.bankeauctions.com पर प्रावधानित ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न की जायेगी। कर्जदार( रों )/सह-अचल सम्पत्ति / प्रतिभत आरक्षित मल्य माँग सुचना की कर्जदार( रों )/जमानती( यों ) तिथि तथा राशि आस्ति का विवरण ₹. 8,80,000/ 10-जून-2023 संपत्ति यनिट नंबर- ए-217 का समस्त भाग, (रुपये आठ लाख अस्मी हजार मात्र दुसरी मंजिल, 400 वर्ग फुट के कारपेट एरिया के रु. 11,00,602/-तिथि 1-जन-2023 हंसराज कुमार (रुपये ग्यारह लाख छः सौ दो मात्र) साथ और 500 वर्ग फुट का सुपर बिल्ट अप तक कल बकाया रु. 11,35,812/ जमा धरोहर राशि (ईएमडी) श्रीमती सोनी एरिया, टावर ए, स्टेलर उपवन, सरस्वती मेडिकल रु. 88,000 कॉलेज के पास, एनएच-24, पिलखुवा, यूपी, रु. 20,000/− IL10087550) आठ सौ बारह मात्र) (रुपये अट्ठासी हजार मात्र) 245304. भारत। (रुपये बीस हजार मात्र) 30-नव.-2022 12-जून-2023 ₹. 9,35,000/-संपत्ति फ्लैट नंबर टीएफ-07 का समस्त भाग, 355 श्री रवि वर्मा रु. 10.13.650/-(रुपये नौ लाख पैंतीस हजार मात्र) तिथि 1-जून-2023 तक कुल बकाया श्रीमती ज्योतिवमा वर्ग फीट के निर्मित क्षेत्र के साथ, प्लॉट नंबर ई39, (रुपये दस लाख तेरह हजार छः सौ रु. 10,53,312/− (प्रॉस्पेक्ट नं. ई40, खसरा नंबर 156ए, 157ए, साई उपवन, पचास मात्र) जमा धरोहर राशि (ईएमडी) (रुपये दस लाख तिरेपन हजार IL10087101) संविदा वृद्धि राशि चकसावेरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत-रु. 93.500/-(रुपये तिरानबे हजार तीन सौ बारह मात्र) 201010 (कारपेट एरिया माप 284 वर्ग फुट) रु. 20.000/− पांच सौ मात्र) (रुपये बीस हजार मात्र) सांकेतिक कब्जा 23-फर.-2023 रु. 10,99,000/- (रुपये दस लाख मौजा नवादा, अंद्रुन लक्ष्मीपुरम कॉलोनी, मथुरा में श्री गौतम उपाध्याय 02-मई-2023 रु. 10.61.440/− निन्यानबे हजार मात्र) स्थित संपत्ति का समस्त भाग, प्लॉट नंबर 16, भूमि 2. जीपी टेलीकॉम (रुपये दस लाख इकसठ हजार चार क्षेत्र 862 वर्ग फुट, कारपेट एरिया 663 वर्ग फुट, तिथि 1-जन-2023 तक कुल बकाय एंड इलेक्ट्रॉनिक्स चालीस मात्र) जमा धरोहर राशि (र्राग्मदी) निर्मित क्षेत्र 781 वर्ग फुट, खसरा नंबर 188, उत्तर श्रीमती कापा उपाध्याय रु. 10.25.399/- (रुपये दस लाख रु 1.09.900/- (रुपये एक लाख प्रदेश, भारत, 281001 (पॉरपेक्ट नंबर संविदा वद्भि राशि पच्चीस हजार तीन सौ निन्यानबे मात्र) नौ हजार नौ सौ मात्र) IL10176138) रु. 25,000/-(रुपये पच्चीस हजार मात्र) तम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि : ईएमडी की अन्तिम तिथि ई-नीलामी की तिथि∕समय

26-जुलाई-2023 को 5 बजे अप. तक 24-जुलाई-2023 1100 बजे -14:00 बजे 28-जुलाई-2023 1100 बजे-1300 बजे **भगतान का माध्यम**ः ईएमडी भगतान केवल ऑनलाइन मोड में किये जाने हैं। भगतान करने के लिए आपके https://bankeauctions.com पर जाना होगी और केवल सम्पत्ति के लिए उपलब्ध लिंक के माध्यम से भुगतान करना होगा।

नोट : प्रत्येक सम्पत्ति के लिए भगतान भिन्न-भिन्न है। सनिश्चित करें कि आप सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से खरीदी जाने वाली सम्पत्ति के लिंक का उपयोग कर रहे हैं। शेष भुगतान के लिए, सफल बोली के बाद, आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम किया जाना है। खाता विवरण निम्नवत हैं : (क) खाते का नाम : आईआईएफएल हो फाइनेंस लिमिटेड, (ख) बैंक का नाम : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड

बैंक लिमिटेड, (ग) खाता नं. 9902879 इसके बाद प्रॉस्पेक्ट संख्या, (घ) आईएफएससी कोड : SCBL0036001, (ङ) बैंक का पता : स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, 90, एम.जी. रोड, फोर्ट, मुम्बई-400001 नियम एवं शर्ते :

ई-नीलामी में भाग लेने हेतु इच्छुक संविदाकारों को अग्रिम में ही सेवा प्रदाता https://www.bankeauctions.com के साथ अपने विवरण पंजीकृत कराने होंगे और लॉगिन खाता, लॉगिन आईडी तथा पासवड सुजित करना होगा। इच्छुक संविदाकारों को अपने ''निविदा प्रपत्र'' ईएमडी के प्रति भुगतान, केवाईसी तथा पैन कार्ड की प्रति के साथ उपर्युक्त शाखा कार्यालय पर जमा करना/भेजना होगा।

संविदाकार अपने प्रस्ताव ''संविदा वृद्धि राशि'' के कॉलम के तहत उल्लिखित राशि के गुणक में बढ़ायेंगे। यदि संविदा नीलामी बन्द होने के समय के अन्तिम 5 मिनटों में रखी जाती है तो बन्द होने का समय स्वतः ही 5

सफल संविदाकार को एओ द्वारा संविदा मुल्य की स्वीकृति के 24 घण्टे के भीतर संविदा राशि का 25% (ईएमडी के समायोजन के बाद) जमा करना होगा और संविदा राशि का शेष 75% प्रतिभृत लेनदार द्वारा बिक्री की पष्टि के 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। सभी जमा राशियां तथा भगतान निर्धारित भगतान माध्यम में करने होंगे। क्रेता को सेस. प्रयोज्य स्टाम्प शुल्क, शुल्क एवं अन्य विधिक देयताओं अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अन्य सभी देयताओं जैसे निगम कर, बिजली के प्रभार, भूमि एवं अन्य आकिस्मक लागतों, प्रभारों तथा सभी करों एवं

दरों, बाह्य व्ययों का वहन करना होगा।

संविदाकारों को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाहियों में भाग लेने हेतु अपनी संविदाएं जमा करने से पूर्व नीलामी बिक्री तथा नीलामी आवेदन प्रपत्र के विस्तृत नियम एवं शर्ती हेतु वेबसाइट https://bankeauctions.com तथा https://www.iifl.com/home-loans/properties-for-auction देखने का परामर्श दिया जाता है।

अधिक विवरण, सहायता प्रक्रिया तथा ई-नीलामी पर प्रशिक्षण के लिए संभावित संविदाकार सेवा प्रदाता से ई-मेल आईडी : support@bankeauctions.com, सपोर्ट हेल्पलाइन नम्बर : 7291981124/25/26

सम्पत्ति से सम्बन्धित पूछताछ, सम्पत्ति के निरीक्षण तथा ऑनलाइल संविदा आदि के लिए आईआईएफएल एचएफएल के टोलफ्री नं. 1800 2672 499 पर सोमवार से शुक्रवार तक 09:30 बजे से 18:00 बजे के बीच कॉल

करें या email:- auction.hl@iifl.com पर लिखें।

एतद्वारा उपर्युक्त कथित कर्जदारों को भौतिक कब्जा लेते समय 7 दिनों के भीतर प्रतिभृत आस्ति पर पड़ी हुई वस्तुएं हटाने की सुचना दी जाती है अन्यथा आईआईएफएल-एचएफएल इन परिस्थितियों में सम्पत्ति के किसी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

् एतद्वारा कर्जदारों को सूचना दी जाती है कि यदि वे उपर्युक्त कथित वस्तुएँ हटाने में असफल रहते हैं तो इसे कानून के अनुसार बेच दिया जायेगा। 10. यदि उपर्युक्त निर्धारित समय के भीतर सफल संविदाकार/नीलामी क्रेता द्वारा किसी भी चरण में भुगतान में चुक होती है तो बिक्री निरस्त हो जायेगी और पहले से अदा की गयी राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जायेगी तथा सम्मनि को पनः बिकी पर रखा जारेगा।

11. एओ को बिना कोई कारण बताइए निविदा/नीलामी के नियम एवं शर्तों को स्थगित/निरस्त अथवा परिवर्तित करने का अधिकार है। यदि निविद्।/नीलामी में कोई विवाद होता है तो आईआईएफएल–एचएफएल के एओ का सरफैसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत 30 दिवसीय विधिक बिक्री सुचना

एतद्वारा कर्जदार को निविदा/नीलामी की तिथि से पूर्व अद्यतन ब्याज एवं अनुषंगी व्ययों सहित उपर्युक्त राशि का भुगतान करने के लिए अधिसुचित किया जाता है जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति की नीलामी/बिक्री की जायेगी और शेष बकाया. यदि कोई हो. ब्याज तथा लागत सहित वसल किया जायेगा।

स्थान : मथुरा/पिलखुआ/गौतम बुद्ध नगर, तिथि : 24 जून, 2023 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

www.readwhere.com

Date: 23/06/2023

Place: New Delhi

the Meeting.

पंजीकृत कार्यालय : 31 / 3203, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005 परिसमापक कार्यालयः खंडेलवाल जैन एंड कंपनी, जी – 8 और 9, हंस भवन 1,

कॉर्पोरेट देनदार की परिसंपत्तियों को "जैसा है जहां है, जैसा है जो है, जो कुछ भी है और बिना

संपत्तियों (एनआरआरए) के असाइनमेंट / स्थानांतरण / बिक्री के लिए निवेशकों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

असाइनमेंट के लिए प्रस्तावित संपत्तियों का विवरण इस प्रकार है: कॉर्पोरेट देनदारों के सभी अधिकारों और हितों का असाइनमेंट, जिसमें मुकदमेबाजी का अधिकार,

नियम्, विनियम्, आदेश, परिपत्र, निर्देश या अधिसूचनाएं ।

परिसमापक को लिखकर अधिक जानकारी या स्पष्टीकरण मांग सकती हैं। कृपया ध्यान दें कि असाइनमेंट I&B कोड के प्रावधानों, उसके तहत बनाए गए नियमों और प्रक्रिया

टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

एक राशि रु. 3.56,60.506.49 / – (तीन करोड छप्पन लाख साठ) हजार पांच सौ छह रुपये और उनचास बार–बार अनुरोध के बावजुद, आपने अपने खाते में बकाया किसी भी राशि का भूगतान नहीं किया है जिसे फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्तीय परिसंपत्तियों आपको उक्त ऋण राशि रु. 3.56.60.506.49 / – (तीन करोड छप्पन लाख साठ हजार पांच सौ छह रुपये

दिनांक 14.06.2023 के मांग नोटिस की प्रभावोत्पादक सेवा सनिश्चित करने के दष्टिकोण के तहत. हम वर्तमान प्रकाशन के माध्यम से उक्त नोटिस की तामील कर रहे हैं। आपको उपरोक्त अधिनियम की धारा

नहीं करेंगे। हस्ता /- अधिकृत अधिकारी,

### GOALPOST INDUSTRIES LIMITED (Formerly known as Gulmohar Investments and Holding Ltd)

Email: gulmoharlimited@gmail.com | Website:www.goalpostltd.in

Notice is hereby given that the Extra-Ordinary General Meeting of the The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their

The Company is providing to its members facility to exercise their right to

The remote e-voting facility shall commence on Saturday, 15th July 2023 from 9:00 A.M. & end on Monday 17th July ,2023 at 5:00 P.M. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time. A person, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date(Record date), i.e., Tuesday 11th July, 2023 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at

For and on behalf of Board Sd/-



